

शहरी बाढ़

शहरी बाढ़

अर्थ

- निर्मित परिवेश में भूमि/संपत्ति का जलमग्न होना, विशेष रूप से शहरों में
- इसका कारण न केवल अधिक वर्षा है, **बल्कि अनियोजित शहरीकरण भी है**

तीव्रता के कारण

- जल अपवाह चैनलों (झीलों, आर्द्धभूमि, नदी तल) पर **अतिक्रमण**
- जलवायु परिवर्तन** (अल्पावधि भारी वर्षा की आवृत्ति में वृद्धि)
- बाँधों से बिना सूचना के **जल का छोड़ा जाना** (जैसे चेन्नई बाढ़ वर्ष 2015)
- खनन गतिविधियाँ (प्राकृतिक नदी तल और जल धारण क्षमता को कम करती हैं)
- शहरी ऊष्मा द्वीप प्रभाव
- चक्रवाती लहरों** से तटीय शहरों/कस्बों पर असर

प्रभाव

- जान-माल की हानि
- बीमारियों का प्रसार
- विद्युत, जल और संचार की आपूर्ति में व्यवधान
- पारिस्थितिक प्रभाव

निवारण हेतु सुझाव

- एकीकृत बाढ़ नियंत्रण कार्यान्वयन अभिकरण का निर्माण
- शहरी और जलवायु चुनौतियों के लिये ब्लू-ग्रीन इनफ्रा
- ब्लू इनफ्रा से तात्पर्य जल निकाय जैसे नदियाँ और तालाब से है
- ग्रीन इनफ्रा से तात्पर्य पेड़, पार्क और उद्यान से है
- बाढ़ की संवेदनशीलता का **मानाचित्रण**
- बेसिनों/द्रोणियों के तट, **बाढ़ की दीवारों**, ऊँचे प्लेटफार्मों का निर्माण

